



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 18-10-2021

आज दिनांक 18-10-2021 को पुलिस आयुक्त वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश द्वारा बनारस क्लब में "38वीं अंतर्जनपदीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता-2021"का शुभारम्भ किया गया।

वाराणसी कमिश्नरेट फाइनल में

वाराणसी कमिश्नरेट, वाराणसी के तत्वाधान में दिनांक 18 से 21 अक्टूबर 2021 तक आयोजित तीन दिवसीय उक्त प्रतियोगिता का उद्घाटन आज बनारस क्लब में पुलिस आयुक्त वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात अपर पुलिस आयुक्त श्री सुभाष चंद्र दुबे के साथ शटल उछाल कर किया जबकि खेल को खेल भावना से साथ खेलने की शपथ, अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे ने दिलाई कार्यक्रम का संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (लाइंस) श्री अवधेश पाण्डे ने किया। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) श्री आदित्य लांगहे, प्रतिसार निरीक्षक श्री उमेश कुमार दुबे, पीटीआई श्री संजीव पांडे के साथ साथ मैच को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्णायक अजेन्द्र राय सचिव जिला बैडमिंटन संघ वाराणसी श्री नगेंद्र सिंह मैच कंट्रोलर श्री करन श्रीवास्तव नेशनल अंपायर श्री राजीव राय स्टेट अंपायर श्री सतेंद्र उपाध्याय, पवन पांडे, पीयूष सिंह, अंकित वर्मा, विकास के साथ-साथ बनारस क्लब के सचिव श्री उदय राजगढ़िया उपस्थित रहे।

आज के मैच का परिणाम इस प्रकार रहा रोमांचक भरी प्रतिस्पर्धा में वाराणसी कमिश्नरेट ने सोनभद्र को 2-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में पहुंचा। वाराणसी कमिश्नरेट का प्रतिनिधित्व कर रहे

अपर पुलिस आयुक्त श्री सुभाष चंद दूबे और अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्री आदित्य लांग्हे की जोड़ी ने सोनभद्र के प्रतिनिधित्व कर रहे सत्य प्रकाश व रवीश चंद को 21-19 21-11 से पराजित किया और उसी टाइ में श्री आदित्य लांग्हे ने रविश चंद जी को 21-11 21-10 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और सेमीफाइनल में मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक व अजय सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट के श्री सुभाष चंद दूबे जी व गोविंद जी ने 21-18 21-18 से सीधे सेटों में पराजित कर व एकल में आदित्य लांग्हे जी ने जय सिंह को 21-15 21-13 से पराजित कर अपने टीम को फाइनल में पहुंचाया और दूसरी छोर से भदोही का प्रतिनिधित्व कर रहे अजय यादव व अभिषेक ने जौनपुर के अरविंद व अजीत ने 21-18 21-12 से पराजित किया। एकल में जौनपुर के अजीत ने भदोही के अजय यादव को 21-14 21-8 से पराजित कर अगले राउंड में प्रवेश किया।

अंतर्जनपदीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुल 11 टीमों ने प्रतिभाग किया जिसमें जनपद आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मऊ, बलिया, वाराणसी ग्रामीण, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र व वाराणसी कमिश्नरेट है।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।**